



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 09.04.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

### थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अभियुक्त रामजी पाण्डेय पुत्र सुरेशचन्द्र पाण्डेय को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपद स्तर पर चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अभियुक्त रामजी पाण्डेय पुत्र सुरेशचन्द्र पाण्डेय निवासी मो0 देवीस्थान कस्बा व थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना मोहम्मदी पर मु0अ0सं0 174/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा गया है।

**थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 590 अदद अल्ट्राजोलम टैबलेट बरामद कर 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. दिनेश राज पुत्र महेश राज 2. मोनू तिवारी पुत्र ओमनारायण तिवारी नि0गण कमलापुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को 590 अवैध अल्ट्राजोलम टैबलेट सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 335/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

**अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **118 लीटर अवैध कच्ची शराब, 03 अवैध शराब भट्टी** बरामद कर **07 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना धौरहरा	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना सम्पूर्णानगर	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना फरधान	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना खीरी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना मैगलगंज	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना पलिया	06 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	106 लीटर	07 अभियुक्त गिरफ्तार